





Mahendra's



IBPS CLERK PRE 2021

Most Expected Paper

FINAL RACE

Reasoning Ability

LIVE

35/35

10:30 AM





UPCOMING ONLINE BATCHES

December 2021

01 Dec 2021

08:00 AM to 10:00 AM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

05:30 PM to 07:30 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

01:00 PM to 03:00 PM

LIVE PREMIUM SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

07:30 PM to 09:30 PM

SSC CGL MAINS LIVE COURSE
(SSC CGL)

BILINGUAL

08 Dec 2021

10:30 AM to 12:30 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

03:00 PM to 05:00 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

08:00 AM to 10:00 AM

LIVE PREMIUM SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

08:00 AM to 10:00 AM

CCC NIELIT LIVE COURSE

BILINGUAL

15 Dec 2021

01:00 PM to 03:00 PM

LIVE PREMIUM
GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

10:30 AM to 12:30 PM

LIVE PREMIUM
SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

BILINGUAL

22 Dec 2021

08:00 AM to 10:00 AM

LIVE PREMIUM
GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

07:30 PM to 09:30 PM

LIVE PREMIUM
SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

BILINGUAL

29 Dec 2021

10:30 AM to 12:30 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

07:30 PM to 09:30 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

03:00 PM to 05:00 PM


LIVE PREMIUM SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

BILINGUAL



बारह लोग दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं जिनमें प्रत्येक में छह लोग इस प्रकार बैठे हैं कि वे एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। पंक्ति 1 में: P, Q, R, S, T और V बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में: A, B, C, D, E और F बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इसलिए, दी गई बैठने की व्यवस्था में, एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति के अन्य सदस्य की ओर है। S, Q के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है। या तो S या Q पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। वह व्यक्ति जिसका मुख Q की ओर है, E के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। B और F के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। न तो B और न ही F पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। B के निकटतम पड़ोसी का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो P के बायें से तीसरे स्थान पर बैठा है। R और T निकटतम पड़ोसी हैं। C, A के बायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। T का मुख D के निकटतम पड़ोसी की ओर नहीं है।

Twelve people are sitting in two parallel rows containing six people each such that they are equidistant from each other. In row 1: P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing South. In row 2: A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing North. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. S sits third to the right of Q. Either S or Q sits at an extreme end of the line. The one who faces Q sits second to the right of E. Two people sit between B and F. Neither B nor F sits at an extreme end of the line. The immediate neighbour of B faces the person who sits third to the left of P. R and T are immediate neighbours. C sits second to the left of A. T does not face the immediate neighbour of D.



Twelve people are sitting in two parallel rows containing six people each such that they are equidistant from each other. In row 1: P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing South. In row 2: A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing North. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. S sits third to the right of Q. Either S or Q sits at an extreme end of the line. The one who faces Q sits second to the right of E. Two people sit between B and F. Neither B nor F sits at an extreme end of the line. The immediate neighbour of B faces the person who sits third to the left of P. R and T are immediate neighbours. C sits second to the left of A. T does not face the immediate neighbour of D.

Row 1. ↓ P V S T R Q
Row 2. ↑ C F A E B D

 30

Who amongst the following sit at the extreme ends of the rows? (a) S, D (b) Q, A (c) V, C (d) P, D (e) Q, F

Who amongst the following faces S? (a) A (b) B (c) C (d) D (e) F

How many persons are seated between V and R? (a) One (b) Two (c) Three (d) Four (e) None of these

P is related to A in the same way as S is related to B based on the given arrangement. Which of the following is T related to, following the same pattern?

(a) C (b) D (c) E (d) F (e) Cannot be determined

Which of the following is true regarding T? (a) F faces T. (b) V is an immediate neighbour of T. (c) F faces the one who is second to the right of T. (d) T sits at one of the extreme ends of the line. (e) Q sits second to the right of T

**expose explain terror' is written as 'ru ri be',
'region power updated' is written as 'ta no pa',
'climb economy terror power' is written as 'do ri pa pi',
'region economy expose explain' is written as 'ru be do no'.**

Which of the following code stands for 'power'?

- (a) ri
- (b) no
- (c) pa
- (d) do
- (e) None of these

What is the code for 'explain'?

- (a) ri
- (b) be
- (c) ru
- (d) do
- (e) Can't be determined

What does 'ru' stand for?

- (a) expose
- (b) Either 'explain' or 'expose'
- (c) terror
- (d) region
- (e) None of these

**expose explain terror' is written as 'ru ri be',
'region power updated' is written as 'ta no pa',
'climb economy terror power' is written as 'do ri pa pi',
'region economy expose explain' is written as 'ru be do no'.**

Which of the following is the code for 'region power updated expose terror'?

- (a) no pa ri ta do
- (b) ta ri pa no be
- (c) ta no ru ri pa
- (d) Either (b) or (c)
- (e) None of these

'pi ri no' is the code for which of the following?

- (a) climb region terror
- (b) climb economy region
- (c) explain terror economy
- (d) climb terror updated
- (e) None of these

Eight persons P, Q, R, S, T, U, V and W are going for holidays on two different dates (13th and 22nd) in four different months i.e. January, March, April and May. All information is not necessarily in same order.

Q goes in April. Three person goes between Q and T. Equal number of persons goes after T and Before R. More than one person goes between R and S who does not goes on odd number date. One person goes between P and W. Equal number of person goes after V and Before U who goes on odd number date. P does not go in the month of Q.

आठ व्यक्ति P, Q, R, S, T, U, V और W चार अलग-अलग महीनों यानी जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई में दो अलग-अलग तिथियों (13 और 22) को छुट्टियों पर जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि सभी जानकारी एक ही क्रम में हों। Q अप्रैल में जाता है। Q और T के बीच तीन व्यक्ति जाते हैं। समान संख्या में व्यक्ति T के बाद और R से पहले जाते हैं। R और S के बीच एक से अधिक व्यक्ति जाते हैं जो विषम संख्या तिथि पर नहीं जाता है। P और W के बीच एक व्यक्ति जाता है। समान संख्या में व्यक्ति V के बाद और U से पहले जाते हैं जो विषम संख्या वाली तारीख को जाता है। P, Q के महीने में नहीं जाता है।

Date	13 th	22 nd
Month		
January	U	T
March	P	S
April	W	Q
May	R	V

Who among the following person goes on 13th January?


- (a) V
- (b) T
- (c) S
- (d) Q
- (e) None of these

How many persons goes between V and S?

- (a) One
- (b) Three
- (c) Four
- (d) Five
- (e) None of these

How many persons go before S?

- (a) Two
- (b) One
- (c) Four
- (d) Five
- (e) None of these

30


Date	13 th	22 nd
Month		
January	U	T
March	P	S
April	W	Q
May	R	V

Which of the following combination is true?

- (a) 13th January-Q
- (b) 22nd April-R
- (c) 13th April-V
- (d) 22nd March-P
- (e) None is true

Who among the following person goes on even number date of the month which has even number of days?

- (a) W
- (b) Q
- (c) U
- (d) V
- (e) None of these

30

Eight pillars are arranged in a ground in a certain way. A is 20m east of B. G is 15m west of D. H is 5m east of C which is 5m north of F. E is 16m south of G. D is 8m north of A. E is 10m east of F.

आठ स्तंभों को एक निश्चित तरीके से एक मैदान में व्यवस्थित किया जाता है। A, B के 20मी पूर्व में है। G, D के 15मी पश्चिम में है। H, C के 5मी पूर्व में है जो F के 5मी उत्तर में है। E, G के 16मी दक्षिण में है। D, A के 8मी उत्तर में है। E, F के 10मी पूर्व में है।

What is the shortest distance between A and E?

- (a) 18m
- (b) 15m
- (c) 17m
- (d) 21m
- (e) 22m

Pillar A is in which direction with respect to H?

- (a) North-East
- (b) South-East
- (c) East
- (d) North-West
- (e) South-West

There are eight members in a family i.e. K, O, L, N, Q, M, P and S. Among them three are married couples. S is the daughter of the one who is L's nephew. Q is the daughter-in-law of the one who is grandfather of M. O has only one grandson. P is grand-daughter-in-law of K. L is O's husband's sister.

एक परिवार में आठ सदस्य हैं अर्थात K, O, L, N, Q, M, P और S। इनमें से तीन विवाहित जोड़े हैं। S उस व्यक्ति की पुत्री है जो L का भतीजा है। Q उस व्यक्ति की बहू है जो M का दादा है। O का केवल एक पोता है। P, K की पोती है। L, O के पति की बहन है

How many children P's father-in-law has?

- (a) Two
- (b) One
- (c) Three
- (d) Four
- (e) None of these

Who among the following is father of N?

- (a) O
- (b) L
- (c) K
- (d) M
- (e) None of these



- (a) If only conclusion I follows
- (b) If only conclusion II follows
- (c) If either I or II follows
- (d) If neither I nor II follows
- (e) If both I and II follow

Statements:

No Glitter is Bracelet
All Locket are Bracelet
Some locket are Ring

Conclusions:

I: Some Ring are not glitter
II: No locket is glitter

Statements:

All Ball are Cat
Only a few Ball are Apple
Some Eagle are Cat


Conclusions:

I: Some Cat are Apple
II: All Eagle are Ball is a possibility



एक परिवार के सात व्यक्ति सोमवार से रविवार तक एक ही सप्ताह में अलग-अलग दिनों में खरीदारी के लिए मॉल जाते हैं। वे सभी अलग-अलग सामान जैसे घड़ी, कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल, किताब, जूते और बैग खरीदते हैं। जरूरी नहीं कि सभी जानकारी एक ही क्रम में हों। D गुरुवार को जाता है और जूते खरीदता है। मोबाइल खरीदने वाले और लैपटॉप खरीदने वाले के बीच तीन व्यक्ति जाते हैं। बैग खरीदने वाले और T के बीच एक व्यक्ति जाता है। मोबाइल खरीदने वाला व्यक्ति बैग खरीदने वाले के ठीक पहले जाता है। H, T के बाद नहीं जाता है। H से पहले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या R के बाद जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। मोबाइल खरीदने वाला व्यक्ति लैपटॉप खरीदने वाले से पहले जाता है। R मोबाइल नहीं खरीदता है और रविवार को नहीं जाता है। M परिवार के सदस्यों में से एक है। जो घड़ी खरीदता है वह किताब खरीदने वाले से पहले और कपड़े खरीदने वाले के बाद जाता है। C और X के बीच एक व्यक्ति जाता है जो कपड़े नहीं खरीदता है।

Seven persons of a family go in mall for shopping on different days in same week starting from Monday to Sunday. All of them buy different items i.e. Watch, Clothes, Laptop, Mobile, Book, Shoes and Bag. All information is not necessarily in same order. D goes on Thursday and buy shoes. Three persons goes between the one who buys mobiles and the one who buys Laptop. One person goes between the one who buys bag and T. The one who buys mobile goes immediately before the one who buys bag. H does not go after T. Number of persons goes before H is equal to the number of persons goes after R. The one who buys mobile goes before the one who buys laptop. R does not buy mobile and does not go on Sunday. M is one of the family members. The one who buys watch goes before the one who buys book and after the one who buys clothes. One person goes between C and X who does not buy clothes.



Seven persons of a family go in mall for shopping on different days in same week starting from Monday to Sunday. All of them buy different items i.e. Watch, Clothes, Laptop, Mobile, Book, Shoes and Bag. All information is not necessarily in same order. D goes on Thursday and buy shoes. Three persons goes between the one who buys mobiles and the one who buys Laptop. One person goes between the one who buys bag and T. The one who buys mobile goes immediately before the one who buys bag. H does not go after T. Number of persons goes before H is equal to the number of persons goes after R. The one who buys mobile goes before the one who buys laptop. R does not buy mobile and does not go on Sunday. M is one of the family members. The one who buys watch goes before the one who buys book and after the one who buys clothes. One person goes between C and X who does not buy clothes.

Days	Person	Items
Monday	C	Clothes
Tuesday	H	Mobile
Wednesday	X	Bag
Thursday	D	Shoes
Friday	T	Watch
Saturday	R	Laptop
Sunday	M	Book

Who among the following person buys Laptop?

- (a) M
- (b) C
- (c) X
- (d) H
- (e) None of these

Four of the following five are alike in certain way based from a group, find the one that does not belong to that group?

- (a) C- bag
- (b) D-Laptop
- (c) R-Shoes
- (d) T- mobile
- (e) H- Shoes

Which of the following item M buys?

- (a) mobile
- (b) Book
- (c) Shoes
- (d) Laptop
- (e) Bag



Days	Person	Items
Monday	C	Clothes
Tuesday	H	Mobile
Wednesday	X	Bag
Thursday	D	Shoes
Friday	T	Watch
Saturday	R	Laptop
Sunday	M	Book

How many persons goes between C and R?

- (a) Two
- (b) One
- (c) Three
- (d) Five
- (e) Four

Which of the following person goes on Wednesday?

- (a) T
- (b) R
- (c) X
- (d) H
- (e) M


 30

आठ व्यक्ति A, B, C, D, E, F, G और H एक पंक्ति में बैठे हैं और चार व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख हैं और चार दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख हैं लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हों। एक साथ बैठने वाले दो से अधिक व्यक्ति समान दिशा की ओर उन्मुख नहीं हैं। G पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। G और H के मध्य चार व्यक्ति बैठे हैं। A, H के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख उत्तर की ओर है। D, B के बायें से तीसरे स्थान पर बैठा है। F, B के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। E किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। F, G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। H अपने पड़ोसी के संबंध में विपरीत दिशा में उन्मुख है। G और H विपरीत दिशा में उन्मुख हैं। E और C के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। E और C का मुख समान दिशा में है।

There are eight people A, B, C, D, E, F, G and H sitting in a row and four people are facing north and four are facing south direction but not necessary in the same order. Not more than two people who sit together face the same direction. G is sitting second from one of the extreme end of the row. Four persons are sitting between G and H. A sits third to the right of H and faces north. D sits third to the left of B. F sits second to the right of B, who is facing in south direction. E is sitting at one of the extreme end and facing in north direction. F is not an immediate neighbor of G. H is facing in opposite direction with respect to its neighbor. G and H are facing in opposite direction. Three persons are sitting between E and C. E and C face in the same direction.



There are eight people A, B, C, D, E, F, G and H sitting in a row and four people are facing north and four are facing south direction but not necessary in the same order. Not more than two people who sit together face the same direction. G is sitting second from one of the extreme end of the row. Four persons are sitting between G and H. A sits third to the right of H and faces north. D sits third to the left of B. F sits second to the right of B, who is facing in south direction. E is sitting at one of the extreme end and facing in north direction. F is not an immediate neighbor of G. H is facing in opposite direction with respect to its neighbor. G and H are facing in opposite direction. Three persons are sitting between E and C. E and C face in the same direction.




Who among the following person sit immediate left of C?

- (a) A
- (b) D
- (c) H
- (d) G
- (e) None of these

Who among the following person sits Second to the left of one who sits immediate left of B?

- (a) H
- (b) A
- (c) C
- (d) D
- (e) G





Four of the following five are alike in certain way based from a group, find the one that does not belong to that group?

- (a) B
- (b) F
- (c) D
- (d) G
- (e) E

How many persons sit between H and E?

- (a) Three
- (b) Five
- (c) More than Five
- (d) One
- (e) Four

Who among the following pair of persons sit at extreme ends?

- (a) F, H
- (b) E, F
- (c) C, A
- (d) B, E
- (e) None of these



